



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

No. 6]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

अन्तरिक्ष विभाग

अधिसूचना

बैंगलूर, 14 दिसम्बर, 2009

सं. ए.एस./एस-25.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सदस्यों के साथ अन्तरिक्ष आयोग का पुनर्गठन आगामी आदेश तक करती हैं :—

- | | |
|--|----------|
| 1. डॉ. के. राधाकृष्णन | —अध्यक्ष |
| सचिव, अन्तरिक्ष विभाग | |
| 2. श्री पृथ्वीराज चव्हाण | —सदस्य |
| राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) | |
| 3. श्री एम.के. नारायणन | —सदस्य |
| राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | |
| 4. श्री टी.के.ए. नायर | —सदस्य |
| प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव | |
| 5. श्री के. एम. चन्द्रशेखर | —सदस्य |
| मंत्रिमंडलीय सचिव | |
| 6. डॉ. आर. चिदम्बरम | —सदस्य |
| भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार | |
| 7. अशोक चावला | —सदस्य |
| सचिव, आर्थिक कार्य विभाग | |
| 8. प्रो. आर. नरसिंहा | —सदस्य |
| भूतपूर्व निदेशक, एन.आई.ए. एस. | |
| 9. श्री व. वेंकटेश्वरा भट्ट | —सदस्य |
| सदस्य (वित्त), अन्तरिक्ष आयोग | (वित्त) |
| 10. डॉ. टी. अलेक्स | —सदस्य |
| निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र | |

जी. बालचन्द्रन, सचिव, अन्तरिक्ष आयोग

DEPARTMENT OF SPACE

NOTIFICATION

Bangalore, 14th December, 2009

No. AS/S-25.—The President is pleased to reconstitute the Space Commission with the following composition until further orders :—

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dr. K. Radhakrishnan | —Chairman |
| Secretary, Department of Space | |
| 2. Shri Prithviraj Chavan | —Member |
| Minister of State (PMO) | |
| 3. Shri M.K. Narayanan | —Member |
| National Security Adviser | |
| 4. Shri T.K.A. Nair | —Member |
| Principal Secretary to Prime Minister | |
| 5. Shri K.M. Chandrasekhar | —Member |
| Cabinet Secretary | |
| 6. Dr. R. Chidambaram | —Member |
| Principal Scientific Advisor to GOI | |
| 7. Shri Ashok Chawla | —Member |
| Secretary, Department of Economic Affairs | |
| 8. Prof. R. Narasimha | —Member |
| Ex-Director, NIAS | |
| 9. Shri V. Venkateshwara Bhat | —Member |
| Member (Finance), Space Commission | (Finance) |
| 10. Dr. T.K. Alex | —Member |
| Director, ISRO Satellite Centre | |

G. BALACHANDHRAN, Secy.
to the Space Commission